

## निर्मल ग्राम बनाने का संकल्प

Sun, 09 Mar 2014 04:21 AM (IST)



फुलपरास(मधुबनी), सं.स.: आगामी तीन माह के भीतर ग्राम पंचायत राज धर्मडीहा पूर्ण रूप से निर्मल ग्राम पंचायत बन जायेगा। महिला दिवस के अवसर पर शनिवार को पंचायत भवन परिसर में मुखिया विभा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित महिला ग्राम सभा में उपस्थित महिलाओं ने एक स्वर से उक्त संकल्प को दुहराया।

ग्राम सभा में महिला सशक्तीकरण,दहेज प्रथा उन्मूलन,बाल विवाह पर पूर्ण रोक,भ्रूण हत्या के प्रति जागरूकता एवं हर घर में शौचालय निर्माण का संकल्प महिलाओं ने लिया। मुखिया विभा सिंह ने कहा कि आपके प्रयास से ही पंचायत में अब तक पाच सौ से उपर शौचालयों का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा सैकड़ों अन्य का निर्माण जारी है। नारी सशक्तीकरण का जिक्र करते हुए मुखिया ने कहा घर एवं समाज के विकास में पुरुषों को सही राय देने से लेकर कंधा से कंधा मिलाकर रचनात्मक सहयोग से ही हमारा भला होने वाला है। सही समय पर अपने पति एवं बच्चों को सही राय देने तथा जरूरत पड़ने पर बौद्धिक से लेकर यथा संभव आर्थिक एवं मानसिक सहयोग से हम महिलाएँ समाज को समृद्ध बना सकती हैं। हर घर में शौचालय निर्माण का संकल्प बीमारियों से छुटकारा पाने एवं लज्जा निवारण की बातों को ध्यान में रखकर लेना ही होगा। पंचायत के अंदर मनरेगा,अन्नपूर्णा योजना,पेंशन आदि में दलित एवं महादलित महिलाओं की सशक्त भागीदारी की चर्चा करते हुए मुखिया श्रीमती सिंह ने कहा कि पंचायत के विकास के लिए इनकी भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता है।

ग्राम सभा में वार्ड सदस्य मालती देवी,राम सुन्दरी देवी,यमुना देवी,शांति देवी,महेश यादव,श्याम सूरत महतो,तेतर कामत,राम राय,भोगी लाल साफी,सफीना खातून,भूपेन्द्र मंडल समेत स्थानीय लोग भी उपस्थित थे।